

Part-II

व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र

(परीक्षा तिथि : 27-07-2008)

भाग-I : सामान्य हिन्दी

1. 'तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप।
साज मिले पंद्रह मिनट, घंटा भर आलाप॥'
में यह रस है

(a) अद्भुत रस	(b) हास्य रस
(c) शृंगार रस	(d) वीभत्स रस

2. 'लड़की चौलड़ी पहने हैं'- रेखांकित में समास है

(a) द्विगु समास	(b) बहुत्रीहि समास
(c) अव्ययी भाव समास	(d) द्रन्द समास

Ans. (b) : 'लड़की चौलड़ी पहने हैं।' रेखांकित में बहुत्रीहि समास है। 'चौलड़ी' का समास विग्रह है-चार है लड़ियाँ जिसमें वह अर्थात् हार विशेष। यह समानाधिकरण बहुत्रीहि समास का उदाहरण है। इसके अन्य उदाहरण हैं-प्राप्तोदक, जितेद्रिय, निर्धन, पीताम्बर, मिठोला, नेकनाम, सतखण्डा इत्यादि।

3. 'कंकर पत्थर जोड़ कर मस्जिद लई बनाय'-

रेखांकित में समास है

(a) अव्ययी भाव समास	(b) तत्पुरुष समास
(c) द्रन्द समास	(d) बहुत्रीहि समास


Ans. (c) : 'कंकर पत्थर जोड़ कर मस्जिद लई बनाय' रेखांकित में द्रन्द समास है। 'कंकर पत्थर' का समास विग्रह 'कंकर और पत्थर' होगा। जिस समास में दोनों पद समानतः प्रधान होते हैं। वहाँ पर द्रन्द समास होता है। इसमें समुच्चयबोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है।

4. जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है, उसे कहते हैं

(a) अव्ययीभाव समास	(b) तत्पुरुष समास
(c) द्रन्द समास	(d) बहुत्रीहि समास

Ans. (b) : जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं।

तत्पुरुष समास के भेद— तत्पुरुष समास के छः भेद होते हैं-



5. 'कृष्ण और सुदामा गुरुभाई थे'- रेखांकित में समास है

(a) अव्ययीभाव समास	(b) तत्पुरुष समास
(c) द्रन्द समास	(d) बहुत्रीहि समास

Ans. (d) : 'कृष्ण और सुदामा गुरुभाई थे' रेखांकित में बहुत्रीहि समास है। जिसका समास विग्रह होगा- एक ही गुरु के शिष्यों के बीच का संबंध विशेष।

6. निम्नलिखित रसांगों में से विभाव छाँटिए-

(a) आलंबन	(b) आश्रय
(c) संचारी	(d) अनुभाव

Ans. (a) : दिये गये रसांगों में से 'आलंबन' विभाव का अंग है। विभाव—स्थायी भाव के जागृत होने का जो कारण होता है, उसे ही 'विभाव' कहा जाता है। विभाव के दो भेद हैं-(1) आलंबन, (2) उदीपन।

7. 'बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय।

सौंह करै, भौंहनि हँसै, दैन कहै, नटि जाय॥

उपर्युक्त दोहे' में इस रस का परिचायक है

(a) अद्भुत रस	(b) शृंगार रस
(c) हास्य रस	(d) शान्त रस

Ans. (b) : "बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय।

सौंह करै, भौंहनि हँसै, दैन कहै, नटि जाय॥"

उपर्युक्त दोहा शृंगार रस का परिचायक है। शृंगार रस का स्थायी भाव 'रति' होता है। शृंगार रस के दो भेद होते हैं-

1. संयोग शृंगार, 2. वियोग शृंगार

उपर्युक्त दोहे में बताया गया है कि गोपियों ने कृष्ण की मुरली इसलिए छुपा दी ताकि कृष्ण से बातें करने का मौका मिल जाए।

8. जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तरपद प्रधान और पूर्व पद गौण हो, उसे कहते हैं—

- | | |
|---------------------|-------------------|
| (a) द्विगु समास | (b) कर्मधारय समास |
| (c) अव्ययी भाव समास | (d) तत्पुरुष समास |

Ans. (d) : जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तरपद प्रधान और पूर्वपद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण-देशभक्ति, रसोईघर।

- द्विगु — पूर्व पद संख्यावाची
- कर्मधारय — विशेषण + विशेष्य
- अव्ययीभाव — पूर्व पद अव्यय

9. निम्नलिखित में किस शब्द में तत्पुरुष समास है?

- | | |
|------------|---------------|
| (a) जलन | (b) पुरुषसिंह |
| (c) लतादेह | (d) हस्तलिखित |

Ans. (d) : ‘हस्तलिखित’ शब्द में तत्पुरुष समास है। ‘हस्तलिखित’ का समास विग्रह होगा-हाथ से लिखा हुआ। ‘हस्तलिखित’ में करण तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का उत्तरपद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के छः भेद होते हैं। पुरुषसिंह- पुरुष रूपी सिंह कर्मधारय तथा लतादेह - देह रूपी लता कर्मधारय समास के उदाहरण हैं।

10. ‘यथाशक्ति’ में कौन सा समास है?

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| (a) बहुत्रीहि समास | (b) अव्ययी भाव समास |
| (c) करण तत्पुरुष समास | (d) द्रन्द्र समास |

Ans. (b) : ‘यथाशक्ति’ में अव्ययीभाव समास है। जिसका समास विग्रह होगा-शक्ति के अनुसार।

अव्ययीभाव समास—इस समास का पहला पद प्रधान होता है और समस्तपद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है।

11. ‘चन्द्रमा’ को यह नहीं कहते हैं

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) कलाधर | (b) ओषधीश |
| (c) शशधर | (d) शशिधर |

Ans. (d) : चन्द्रमा को शशधर नहीं कहते हैं, बल्कि शंकर को कहते हैं। अन्य विकल्प चन्द्रमा के पर्याय हैं।

12. इनमें एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है

- | | |
|----------|------------|
| (a) अश्म | (b) सैन्यव |
| (c) घोटक | (d) तुरंग |

Ans. (a) : ‘अश्म’ शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ‘पत्थर’ का पर्याय है। अन्य विकल्प घोड़ा के पर्याय हैं।

13. निम्नलिखित में कौन सा शब्द ‘सिंह’ का पर्यायवाची है?

- | | |
|------------|------------|
| (a) अंतक | (b) मृगांक |
| (c) पंचानन | (d) सिंधुर |

Ans. (c) : पंचानन शब्द ‘सिंह’ का पर्यायवाची शब्द है। ‘सिंह’ का अन्य पर्यायवाची शब्द-व्याघ्र, केसरी, मृगेन्द्र, शेर, शार्दूल, मृगराज, नाहर आदि है। जबकि ‘अंतक’ यमराज का, ‘मृगांक’ चन्द्रमा का तथा ‘सैन्यव’ घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है।

14. जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं-

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (a) द्विगु समास | (b) द्रन्द्र समास |
| (c) तत्पुरुष समास | (d) कर्मधारय समास |

Ans. (b) :	पद की प्रधानता	समास
	प्रथम/पूर्व	अव्ययीभाव
	द्वितीय/उत्तर	तत्पुरुष, कर्म धारय, द्विगु
	दोनों	द्रन्द्र
	अन्य	बहुत्रीहि

15. जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, उसे कहते हैं

- | | |
|---------------------|--------------------|
| (a) अव्ययी भाव समास | (b) बहुत्रीहि समास |
| (c) द्रन्द्र समास | (d) कर्मधारय समास |

Ans. (b) : जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुत्रीहि समास कहते हैं।

जैसे- लम्बोदर-लम्बा है उदर जिसका अर्थात् गणेश।

16. ‘हवा’ के लिए पर्यायवाची शब्द है—

- | | |
|----------|----------|
| (a) अनिल | (b) अनल |
| (c) अनंग | (d) अनूप |

Ans. (a) : ‘हवा’ के लिए पर्यायवाची शब्द ‘अनिल’ है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं- पवन, वायु समीर, वात, पवमान आदि। जबकि, ‘अनल’ आग का, ‘अनंग’ कामदेव का तथा ‘अनूप’ अद्वितीय का पर्यायवाची शब्द है।

17. निम्नलिखित में एक ‘अग्नि’ का पर्यायवाची नहीं है—

- | | |
|----------|---------|
| (a) पावक | (b) अनल |
| (c) अनिल | (d) वहि |

Ans. (c) : ‘अनिल’ अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह हवा का पर्यायवाची शब्द है। जबकि पावक, अनल, वहि, हुताशन आदि अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं।

18. ‘शशक’ का पर्यायवाची शब्द है—

- | | |
|-------------|----------|
| (a) चंद्रमा | (b) शिशु |
| (c) खरगोश | (d) मृग |

Ans. (c) : ‘शशक’ का पर्यायवाची शब्द खरगोश है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं- खरहा, शसा, शश आदि। जबकि ‘चन्द्रमा’ चाँद का, ‘मृग’ हिरण्य का तथा ‘शिशु’ बालक का पर्यायवाची शब्द है।

19. निम्नलिखित में कौन सा शब्द 'जंगल' का पर्यायवाची नहीं है?

- (a) वन
- (b) अरण्य
- (c) विपिन
- (d) दावा

Ans. (d) : 'दावा' जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जबकि वन, अरण्य, कानन, दाव विपिन आदि जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं।

20. 'अलभ्य' का विलोम शब्द है-

- (a) सुगम
- (b) सहज
- (c) सरल
- (d) सुलभ

Ans. (d) : 'अलभ्य' का विलोम शब्द 'सुलभ' होगा। निम्नलिखित विलोम शब्द हैं-

शब्द	विलोम
अलभ्य	सुलभ
सरल	कठिन
सुगम	दुर्गम
सहज	असहज

21. 'गौरव' का विलोम शब्द है

- (a) लाघव
- (b) गौरव
- (c) लज्जा
- (d) अपमान

Ans. (a) : 'गौरव' का विलोम शब्द 'लाघव' तथा 'अपमान' का विलोम 'सम्मान' होता है।

22. 'अनभिज्ञ' का विलोम शब्द है

- (a) भिज्ञ
- (b) अभिज्ञ
- (c) अज्ञ
- (d) अविज्ञ

Ans. (b) : निम्नलिखित विलोम शब्द हैं-

शब्द	विलोम
अनभिज्ञ	अभिज्ञ
भिज्ञ	अभिज्ञ
अज्ञ	विज्ञ
अविज्ञ	विज्ञ

23. 'गमन' का विलोम शब्द है

- (a) निर्गम
- (b) गमनागमन
- (c) आगमन
- (d) प्रत्यागमन

Ans. (c) : 'गमन' का विलोम 'आगमन' होगा। शेष विकल्प तक संगत नहीं है।

24. निम्नलिखित में कौन सा शब्द 'स्वर्ण' के पर्यायवाची है?

- (a) कलित
- (b) अवतंस
- (c) जातरूप
- (d) तामरस

Ans. (c) : 'जातरूप' शब्द 'स्वर्ण' का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं-कंचन, हाटक, कनक, हेम, सुवर्ण आदि। विवरण इस प्रकार है-

कलित	- सजाया हुआ
अवतंस	- माला
जातरूप	- स्वर्ण
तामरस	- कमल

25. निम्नलिखित में कौन सा शब्द 'भ्रमर' का पर्यायवाची नहीं है?

- (a) चंचरीक
- (b) शिलीमुख
- (c) द्विरेफ
- (d) द्विरद

Ans. (d) : 'द्विरद' शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। 'द्विरद' हाथी का पर्यायवाची शब्द है। जबकि, चंचरीक, शिलीमुख, द्विरेफ, अलि, भौंग, षट्पद, मधुकर, मधुप आदि भ्रमर के पर्यायवाची शब्द हैं।

26. 'श्रीगणेश' का विलोम है-

- (a) समापन
- (b) इतिश्री
- (c) अंत
- (d) अथ

Ans. (b) : 'श्रीगणेश' का विलोम शब्द 'इतिश्री' है। ध्यातव्य रहे कि तत्सम का विलोम तत्सम तथा तदभव का विलोम तदभव होता है।

27. 'निंदा' का विलोम है-

- (a) स्तुति
- (b) संस्तुति
- (c) संवेदना
- (d) स्तवन

Ans. (a) : 'निंदा' का विलोम शब्द 'स्तुति' होगा। शेष विकल्प तक संगत नहीं हैं।

28. 'मधुर' का विलोम है-

- (a) आम्ल
- (b) तीक्ष्ण
- (c) क्षरित
- (d) कटु

Ans. (d) : मधुर का विलोम 'कटु' है। जबकि 'तीक्ष्ण' का विलोम 'मंद' होगा। शेष विकल्प असंगत हैं।

29. 'खाट' का तत्सम रूप है-

- (a) खट्टेवा
- (b) खाट्वा
- (c) खाटव
- (d) खटिया

Ans. (a) : 'खाट' का तत्सम रूप 'खट्टेवा' होगा। खाट्वा एवं खाटव असंगत शब्द हैं, जबकि खटिया देशज शब्द है।

30. 'पनही' शब्द का तत्सम रूप है-

- (a) तांबूल
- (b) पर्ण
- (c) पर्णही
- (d) उपानह

Ans. (d) : 'पनही' का तत्सम 'उपानह' होगा। अन्य विकल्प का तद्भव रूप इस प्रकार है-

तत्सम	तद्भव
ताम्बूल	पान
पर्ण	पत्ता

31. 'पोखर' का तत्सम रूप है-

- (a) पुष्कर
- (b) प्रखर
- (c) पोषक
- (d) प्रकर

Ans. (a) : पोखर का तत्सम 'पुष्कर' है। जबकि अन्य तीनों विकल्प तर्कसंगत नहीं हैं।

32. 'दाहिना' का तत्सम रूप है-

- (a) दाक्षिण्य
- (b) दक्षिण
- (c) दाहिणा
- (d) दायाँ

Ans. (b) : 'दाहिना' का तत्सम रूप 'दक्षिण' है। अन्य विकल्प असंगत हैं।

33. 'सुई' का तत्सम रूप है-

- (a) सूजी
- (b) सूई
- (c) सूची
- (d) शूचक

Ans. (c) : 'सुई' का तत्सम रूप 'सूची' है। इसका अन्य तत्सम रूप 'सूचिका' भी होता है।

34. 'हस्त' का तद्भव है-

- (a) हाथ
- (b) हाथी
- (c) हस्तिनी
- (d) हथियार

Ans. (a) : हस्त का तद्भव हाथ है। जबकि हाथी का हस्ती होगा। अन्य विकल्प असंगत हैं। शुद्ध संस्कृतनिष्ठ शब्दों को तत्सम और जो शब्द तत्सम शब्दों से उत्पन्न या विकसित होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं।

35. निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्दयुग्म शुद्ध नहीं है-

- (a) आयात-निर्यात
- (b) पाप-पुण्य
- (c) बद्ध-मुक्त
- (d) नूतन-सनातन

Ans. (d) : दिये गये विलोम युग्मों में 'नूतन-सनातन' युग्म विलोम अर्थ की वृद्धि से सही नहीं है। सही विलोम युग्म हैं-

शब्द	विलोम
नूतन	पुरातन
आयात	निर्यात
पाप	पुण्य
बद्ध	मुक्त

36. निम्नलिखित में एक 'निर्भक' का विलोम नहीं है-

- (a) साहसी
- (b) साहसिक
- (c) कातर
- (d) कायर

Ans. (a & b) : दिए गए विकल्पों में 'निर्भक' शब्द का विलोम 'साहसी' एवं 'साहसिक' दोनों नहीं होगा। 'साहसिक' का अर्थ 'चोर' होता है। जबकि कातर, कायर निर्भक का विलोम हैं।

37. निम्नलिखित शब्दों में यह तद्भव शब्द है-

- | | |
|-----------|----------|
| (a) विहग | (b) खग |
| (c) पक्षी | (d) पंछी |

Ans. (d) : दिए गए विकल्पों में 'पंछी' शब्द तद्भव रूप में है, जबकि अन्य विकल्प खग, विहग, पक्षी तत्सम शब्द हैं। पंछी का तत्सम पक्षी है।

38. निम्नलिखित में 'यण' संधि कौन सी है?

- | | |
|------------|--------------|
| (a) यद्यपि | (b) एकैक |
| (c) सदैव | (d) महौजस्वी |

Ans. (a) : यद्यपि शब्द में 'यण संधि' होगी। इसका विच्छेद यदि + अपि होगा।

यण संधि—जब इ या ई, उ या ऊ तथा 'ऋ' के बाद कोई असमान स्वर आये तो इ या ई स्थान पर य और उ या ऊ के स्थान पर व 'ऋ' के स्थान पर 'र' हो जाता है।

जैसे—अति + अल्प = अत्यल्प

सु + आगत = स्वागत

इसके अतिरिक्त एकैक, सदैव, महौजस्वी में वृद्धि संधि है।

वृद्धि संधि—जब अ, आ के बाद ए, ऐ आये तो 'ऐ' हो जाता है और जब अ, आ के बाद ओ, औ आये तो 'औ' हो जाता है।

जैसे-एक + एक = एकैक

सदा + एव = सदैव

महा + ओजस्वी = महौजस्वी

39. निम्नलिखित में 'वृद्धि स्वर संधि' कौन सी है?

- | | |
|--------------|----------------|
| (a) पृथ्वीश | (b) विद्यार्थी |
| (c) महीन्द्र | (d) महौषध |

Ans. (d) : महौषध में वृद्धि स्वर संधि है। इसका विग्रह है- महौषध = महा + ओषध।

वृद्धि संधि—जब अ, आ, के बाद ए, ऐ और अ, आ के बाद ओ, औ आये तो ए, ऐ का 'ऐ' और ओ, औ का 'औ' हो जाता है।

40. निम्नलिखित में यह संधि विच्छेद सही है-

- | | |
|------------------|-----------------|
| (a) परम् + आत्मा | (b) परम + आत्मा |
| (c) परमा + आत्मा | (d) पर + मात्मा |

Ans. (b) : निम्न विकल्पों में शुद्ध संधि विच्छेद परम + आत्मा = परमात्मा है। यहां पर दीर्घ स्वर संधि है।

दीर्घ संधि—जब सर्वां स्वर के दो रूप एक दूसरे के बाद आ जाएं, तो वे दोनों जुड़कर दीर्घ हो जाते हैं।

जैसे—कुश + आसन = कुशासन

देव + आलय = देवालय

41. निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है-

- | | |
|----------------|----------------|
| (a) पर + अधीन | (b) पर + आधीन |
| (c) परा + अधीन | (d) परा + आधीन |

Ans. (a) : पर + अधीन = पराधीन शुद्ध विग्रह रूप है। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है।

42. 'उच्चारण' का सही संधि विच्छेद है-

- | | |
|-----------------|----------------|
| (a) उच्च + चारण | (b) उत + चारण |
| (c) उच् + चारण | (d) उत् + चारण |

Ans. (d) : उच्चारण का सही विच्छेद 'उत् + चारण' होगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। यदि त् के बाद च् तथा त् के बाद ट् आये तो क्रमशः त् का च् एवं ट् हो जाता है। जैसे—सत् + चरित् = सच्चरित्।

43. 'महाशय' शब्द का सही संधि विच्छेद है-

- | | |
|---------------|---------------|
| (a) मह: + आशय | (b) मह + आशय |
| (c) महा + आशय | (d) महाश + अय |

Ans. (c) : 'महाशय' शब्द का सही संधि विच्छेद-'महा + आशय' होगा। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। इस संधि में अ, इ, उ के बाद यदि हस्त या दीर्घ अ, इ, उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई और ऊ हो जाते हैं। जैसे- विद्या + आलय = विद्यालय।

44. 'पावन' शब्द का सही संधि विच्छेद है

- | | |
|---------------|--------------|
| (a) प + अवन | (b) पा + आवन |
| (c) पाव् + अन | (d) पौ + अन |

Ans. (d) : 'पावन' शब्द का सही संधि विच्छेद 'पौ + अन' है। यह अयादि संधि का उदाहरण है। जिस संधि में ए, ऐ, ओ, औ आ के बाद कोई असमान स्वर हो तो इसके स्थान क्रमशः अय, आय, अव, आव् हो जाता है। जैसे—गै + अक = गायक।

45. 'उल्लास' शब्द का सही संधि विच्छेद होगा-

- | | |
|---------------|---------------|
| (a) उत् + लास | (b) उल् + लास |
| (c) उल + लास | (d) उल्ल + आस |

Ans. (a) : 'उल्लास' शब्द का सही संधि विच्छेद 'उत् + लास' होगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, जिस संधि में त, द के बाद ल रहे तो त, द 'ल' में बदल जाते हैं और 'य' के बाद ल रहे तो 'न' को अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। जैसे-महान् + लास = महाल्लास

46. 'तत्सम' से 'तदभव' बने सही शब्द-युग्म के खोजिए।

- | | |
|-----------------|----------------|
| (a) घट-घड़ा | (b) राख-रक्षा |
| (c) धन्या-धनिया | (d) वर्टी-बड़ी |

Ans. (a) : तत्सम से तदभव बने सही शब्द युग्म 'घट-घड़ा' है। यहाँ इस प्रकार है-

तदभव	तत्सम
राख	क्षार
धनिया	धनिका
बच्ची	वर्तिका

47. निम्नलिखित में यह तदभव शब्द है-

- | | |
|----------|------------|
| (a) चाम | (b) धर्म |
| (c) पर्ण | (d) विष्णु |

Ans. (a) : 'चाम' तदभव शब्द है इसका तत्सम रूप चर्म होगा। जबकि धर्म, पर्क, विष्णु, तत्सम शब्द है।

48. 'जो व्याकरण जानता है' के लिए एक शब्द है-

- | | |
|---------------|--------------|
| (a) वैयाकरण | (b) व्याकरणक |
| (c) व्याकरणिक | (d) व्याकरणी |

Ans. (a) : 'जो व्याकरण जानता है' के लिए एक शब्द वैयाकरण है। अन्य विकल्प तर्कसंगत नहीं हैं।

49. 'जो क्षमा करने योग्य नहीं है' वाक्यांश के लिए एक शब्द है-

- | | |
|-------------|-------------|
| (a) अदम्य | (b) अक्षम्य |
| (c) निर्गुण | (d) सक्षम |

Ans. (b) : वाक्यांश के लिए एक शब्द इस प्रकार है


वाक्यांश	शब्द
जो क्षमा करने योग्य नहीं है	अक्षम्य
जो दबाया न जा सके	अदम्य
जो गुणों से रहित है	निर्गुण
समुचित सामर्थ्य वाला	सक्षम

50. 'पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण' को कहते हैं-

- | | |
|------------|------------|
| (a) ईशान | (b) नैऋत्य |
| (c) वायव्य | (d) आग्नेय |

Ans. (c) : वाक्यांश के लिए एक शब्द इस प्रकार है-

वाक्यांश	शब्द
पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य कोण	वायव्य
उत्तर और पूर्व दिशाओं के मध्य कोण	ईशान
*पश्चिम और दक्षिण दिशाओं के मध्य कोण	नैऋत्य
दक्षिण और पूर्व दिशाओं के मध्य कोण	आग्नेय



51. 'जिसकी आश न की गयी हो' वाक्यांश के लिए एक शब्द है-

- | | |
|--------------|-----------------|
| (a) नाउमीदी | (b) आशातीत |
| (c) अग्रसोची | (d) अप्रत्याशित |

Ans. (d) : वाक्यांश के लिए एक शब्द इस प्रकार है-

वाक्यांश	शब्द
जिसकी आश न की गयी हो	अप्रत्याशित
आशा से अतीत (अधिक)	आशातीत
जो अग्र (आगे) की बात सोचता है	अग्रसोची

52. 'उपकृत' शब्द के लिए सही वाक्यांश है-

- (a) जिससे उपकार हुआ हो
- (b) जिसने उपकार किया हो
- (c) जो उपकार न मानता हो
- (d) जिस पर उपकार किया गया हो

Ans. (d) : वाक्यांश के लिए एक शब्द इस प्रकार है-

वाक्यांश	शब्द
जिस पर उपकार किया गया हो	उपकृत
जिससे उपकार हुआ हो/जिसने उपकार किया हो	परोपकारी
जो उपकार न मानता हो	कृतघ्न

53. 'युगों से चले आने वाले' के लिए एक शब्द होगा-

- (a) अवर्वाचीन
- (b) युगान्तर
- (c) युगांत
- (d) सनातन

Ans. (d) : 'युगों से चले आने वाले के लिए' एक शब्द 'सनातन' होगा। शेष इस प्रकार हैं-

वाक्यांश	एकशब्द
वर्तमान या आधुनिकता से संबंधित	अवर्वाचीन
युगों के समय का अन्तर	युगान्तर
युगों का अन्त	युगान्त

54. 'जिसे बुढ़ापा न आये' वाक्यांश के लिए एक तत्सम

शब्द है-

- (a) निर्झर
- (b) निरजर
- (c) अजर
- (d) अमर

Ans. (c) : 'जिसे बुढ़ापा न आये' वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द 'अजर' है। शेष इस प्रकार हैं-

वाक्यांश	एकशब्द
झरता हुआ जल	निर्झर
जो न मरे	अमर

55. 'अतएव' शब्द का सही संधि विच्छेद है-

- (a) अत + एव
- (b) अति + एव
- (c) अती + एव
- (d) अतः + एव

Ans. (d) : 'अतएव' शब्द का सही संधि विच्छेद अतः + एव होगा। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, यदि विसर्ग के बाद 'अ' के अंतिरिक्त दूसरा स्वर आए, तो यह नियम लागू नहीं होगा, अतिक विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे-अतः + एव = अतएव।

56. 'जिसे ईश्वर में विश्वास है' के लिए एक शब्द है-

- (a) ईश्वरी
- (b) मक्त
- (c) आस्तिक
- (d) पुजारी

Ans. (c) : 'जिसे ईश्वर में विश्वास है' के लिए एक 'आस्तिक' होगा। अन्य विकल्प तर्कसंगत नहीं हैं।

57. 'भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दाँत गड़ा दिये'- वाक्य में प्रयुक्त 'दाँत गड़ा दिये' का अर्थ है-

- (a) किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की गहरी चाह
- (b) दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना
- (c) दूसरे की वस्तु चुराने की चेष्टा करना
- (d) धोखे से दूसरे की वस्तु लेना

Ans. (b) : 'भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दाँत गड़ा दिये' वाक्य में प्रयुक्त 'दाँत गड़ा दिये' मुहावरे का दिये गये विकल्पों में से सही अर्थ है- दूसरे की वस्तु को देखकर ललचा जाना। शेष विकल्प इसके अर्थ की दृष्टि से असंगत हैं।

58. 'चाँद पर थूकना' मुहावरे का आशय है-

- (a) असंभव काम करना
- (b) निरर्थक काम करना
- (c) सौंदर्य का अनादर करना
- (d) सम्माननीय का अनादर करना

Ans. (d) : 'चाँद पर थूकना' मुहावरे का अर्थ है- सम्माननीय का अनादर करना। 'धास खोदना' मुहावरा 'निरर्थक काम करना' अर्थ में प्रयुक्त होता है।

59. 'बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे'- वाक्य में 'बुरी तरह पछताओगे' के स्थान पर यह मुहावरा आ सकता है-

- (a) अंगरों पर लोटोगे
- (b) आठ-आठ आँसू रोओगे
- (c) अचरा पसारोगे
- (d) कुँै में गिरोगे

Ans. (b) : वाक्य में प्रयुक्त 'बुरी तरह पछताओगे' के लिए 'आठ-आठ आँसू रोओगे' मुहावरे का प्रयोग होगा।

60. "मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अन्तर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है"- यह कथन

- (a) सही है
- (b) गलत है
- (c) कथन का प्रथम अंश सही है
- (d) कथन का अंतिम अंश सही है

Ans. (a) : “मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है”- कथन सही है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता जबकि कहावत का स्वतंत्र प्रयोग होता है।

61. इस वाक्यांश में ‘निर्मम’ अर्थ समाहित है-

- (a) क्रूर हृदय वाला व्यक्ति
- (b) ममताशून्य हृदय वाला व्यक्ति
- (c) संवेदनशून्य व्यक्ति
- (d) दया रहित व्यक्ति

Ans. (b) : ‘ममताशून्य’ हृदय वाला व्यक्ति’ वाक्यांश में ‘निर्मम’ अर्थ समाहित है। क्रूर का अर्थ है- दूसरों को दुख पहुँचाने वाला व्यक्ति। दया रहित व्यक्ति को ‘निर्दय’ कहते हैं।

62. ‘समय के अनुसार काम करना चाहिए’ अर्थ की बोधक लोकोक्ति है-

- (a) जैसी बहू बयार, पीठ तब तैसी दीजै
- (b) जाके पांव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई
- (c) उँगली पकड़ कर पहुँचा पकड़ना
- (d) का बरसा जब कृषी सुखाने

Ans. (a) : विवरण निम्न प्रकार है-

लोकोक्ति	अर्थ
जैसी बहू बयार, पीठ तब तैसी दीजै -	भुक्तभोगी ही दूसरों के कष्ट को समझ सकता है।
जाके पांव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई -	दूसरे के दुःख को भुक्तभोगी ही समझता है
उँगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना -	सहारा पाकर अधिकार जमाना
का बरसा जब कृषी सुखाने -	आवश्यकता समाप्त होने पर कार्य करना।

63. ‘कलम तोड़ना’ मुहावरे का अर्थ है-

- (a) सही लिखना
- (b) अच्छा लिखना
- (c) ज्यादा लिखना
- (d) बेकार लिखकर प्रायश्चित करना

Ans. (b) : ‘कलम तोड़ना’ मुहावरे का अर्थ है- अच्छा लिखना। ‘कागज काला करना’ का अर्थ होता है बेकार में लिखा-पढ़ी करना।

64. ‘ढाँक के तीन पात’ का अर्थ है-

- (a) अपने स्थान पर अड़िग रहना
- (b) साफ इंकार कर देना
- (c) बेकार घूमना
- (d) कभी किसी विशेषता से सम्बन्ध न होना

Ans. (a) : ‘ढाँक के तीन पात’ मुहावरे का अर्थ दिये गये विकल्प के अनुसार इस प्रकार है- अपने स्थान पर अड़िग रहना। ‘टका स जवाब देना’ मुहावरा ‘साफ इंकार कर देना’ के लिए प्रयुक्त होता है।

65. निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है?

- (a) कवि ने संपादक को एक कविता भेजी
- (b) अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा
- (c) बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना
- (d) अमित ने जेब से दस रुपये का नोट निकाला

Ans. (b) : दिये गये वाक्यों में ‘अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा’ वाक्य त्रुटिपूर्ण है, इसका शुद्ध वर्तनी रूप है- अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न किया।

66. निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है-

- | | |
|--------------|--------------|
| (a) शुश्रूषा | (b) सुश्रूषा |
| (c) वेशभूषा | (d) मनीषा |

Ans. (b) : दिये गये शब्दों में ‘सुश्रूषा’ वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द है। इसका शुद्ध रूप है- शुश्रूषा। शेष सभी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं।

67. निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है-

- (a) उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं
- (b) राम गाते-गाते सरोवर तक गया
- (c) वह ग्रायः मेरे यहाँ आता था
- (d) आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थिति थे

Ans. (d) : दिये गये वाक्यों में अशुद्ध वाक्य है- आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थिति थे। इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा- आम सभा में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थिति थे। ध्यातव्य हो कि ‘प्रत्येक’ एकवचन में प्रयुक्त होने वाला विशेषण है जिसके साथ सदैव एकवचन का विशेषण (वर्ग) प्रयुक्त होगा।

68. ‘नियम विरुद्ध कार्य करना’ अर्थ के अनुकूल सही मुहावरा है-

- (a) सूरज को दिया दिखाना
- (b) उल्टी गंगा बहाना
- (c) दाई से पेट छिपाना
- (d) नौ दो ग्यारह हो जाना

Ans. (b) : दिये गये मुहावरों का अर्थ इस प्रकार है-

मुहावरे	अर्थ
उल्टी गंगा बहाना	- नियम विरुद्ध कार्य करना
सूरज को दिया दिखाना	- जो स्वयं प्रसिद्ध या श्रेष्ठ हो उसके विषय में कुछ बताना
दाई से पेट छिपाना	- जानकार से भेद छिपाना
नौ दो ग्यारह हो जाना	- भाग जाना

69. इनमें एक लोकोक्ति है—

- (a) अंगूठा दिखाना
- (b) अंधा होना
- (c) ऊँट के मुँह में जीरा
- (d) इधर-उधर की हाँकना

Ans. (c) : दिये गये विकल्पों में 'ऊँट के मुँह में जीरा' प्रचलित लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है- अपर्याप्त या अल्प। शेष सभी मुहावरे हैं।

70. निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है:

- (a) निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए
- (b) वह सकुशल घर पहुँच गया
- (c) मोती सीप में पलता है
- (d) व्यापारी ने पांच कुंतल कोयला खरीदा

Ans. (a) : दिये गये वाक्यों में 'निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए' वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा- निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए।

71. निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है

- (a) हम लोग आपका आभार मानते हैं
- (b) तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा
- (c) अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी
- (d) वह कमरे में जाकर सो गया है

Ans. (b) : 'तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा' यह वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य-तुमने उसे बैठने के लिए क्यों नहीं कहा जबकि अन्य तीनों विकल्प शुद्ध हैं।

72. निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है:

- (a) उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी
- (b) राम, सीता और लक्ष्मण वन को गये
- (c) उसकी आँखों से आँसू निकल पड़े
- (d) आपकी महता से सभी लोग परिचित हैं

Ans. (a) : उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी। वाक्य त्रुटिपूर्ण है। इसका शुद्ध रूप है- 'उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी'।

73. निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है:

- (a) पेड़ की पत्ता गिरी
- (b) पेड़ में से पत्ता गिरा
- (c) पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से
- (d) पेड़ से पत्ता गिरा

Ans. (d) : पेड़ से पत्ता गिरा यह वाक्य शुद्ध है। जबकि अन्य तीनों विकल्प असंगत हैं।

74. निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है :

- (a) संभवतः मैं रविवार को आ जाऊँगा
- (b) जीती मक्खी निंगली नहीं जाती।
- (c) विद्या सर्वेव साथ रहने वाला धन होता है
- (d) मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएँगे

Ans. (c) : दिये गये वाक्यों में 'विद्या सर्वेव साथ रहने वाला धन है।' वाक्य त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसमें 'सर्वेव' शब्द वर्तनी की वृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। इसके स्थान पर 'सर्वैव' शब्द होना चाहिए।

75. निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध नहीं है :

- (a) उसने केवल मुझे निमंत्रित किया
- (b) सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए
- (c) आपने उसे टका सा जवाब दे दिया।
- (d) शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े

Ans. (d) : 'शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े।' वाक्य त्रुटिपूर्ण है। इसका शुद्ध रूप है- 'शिष्य गुरु जी के पैर पर गिर पड़े।'

76. निम्नलिखित शब्दों में एक 'वर' का अनेकार्थी नहीं है:

- | | |
|-------------|------------|
| (a) श्रेष्ठ | (b) वरदान |
| (c) पति | (d) सुवर्ण |

Ans. (d) : दिए गए शब्दों में सुवर्ण 'वर' का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जबकि श्रेष्ठ, वरदान, पति वर का अनेकार्थी शब्द है।

77. निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है :

- | | |
|------------|------------|
| (a) शेर | (b) गोली |
| (c) कुत्ता | (d) हिमालय |

Ans. (b) : 'गोली' अनेकार्थी शब्द है। जैसे- दवाई की बटिका, कंचा, बन्दूक की गोली, धागे की गोली जबकि शेर, कुत्ता, हिमालय अनेकार्थी शब्द नहीं हैं।

78. निम्नलिखित में एक शब्द अनेकार्थी है :

- | | |
|----------|------------|
| (a) पत्र | (b) मुद्रा |
| (c) दंड | (d) पुस्तक |

Ans. (a) : पत्र अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ- पत्ता, चिट्ठी, पंख होता है। जबकि तीनों विकल्प असंगत हैं।

79. कौन सा शब्द 'अर्क' का अनेकार्थी नहीं है?

- | | |
|----------------|-----------------|
| (a) सूर्य | (b) प्रकाश किरण |
| (c) आक का पेड़ | (d) ज्वाला |

Ans. (d) : ज्वाला अनेकार्थी शब्द नहीं है। जबकि सूर्य, प्रकाश किरण, आक का पेड़। ये शब्द अनेकार्थी के अन्तर्गत आते हैं।

80. कौन सा शब्द 'पत्र' शब्द का अनेकार्थी नहीं है?

- | | |
|-----------|------------|
| (a) पत्ता | (b) चिट्ठी |
| (c) कागज | (d) पुष्प |

Ans. (d) : 'पुष्प' पत्र का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पत्ता, चिट्ठी, कागज ये तीनों विकल्प पत्र के अनेकार्थी शब्द हैं।

93. 'रसराज' किस रस को कहा गया है?

- | | |
|---------------|--------------|
| (a) शृंगार रस | (b) करुण रस |
| (c) वीर रस | (d) हास्य रस |

Ans. (a) : 'शृंगार रस' को रसराज कहा जाता है। आचार्य मोजराज ने शृंगार को रसराज कहा है।

94. 'निर्वेद' किस रस का स्थायी भाव है?

- | | |
|---------------|--------------|
| (a) शृंगार रस | (b) करुण रस |
| (c) शान्त रस | (d) भयानक रस |

Ans. (c) : 'निर्वेद' शांत रस का स्थायी भाव है। अन्य रस व स्थायी भाव इस प्रकार हैं-

रस	स्थायी भाव
शृंगार	- रति
हास्य	- हास
रौद्र	- क्रोध
शांत	- निर्वेद/शम/वैराग्य
भयानक	- भय
वीर	- उत्साह

95. 'जुगुप्सा' किस रस का स्थायी भाव है?

- | | |
|---------------|---------------|
| (a) शृंगार रस | (b) वीर रस |
| (c) रौद्र रस | (d) वीभत्स रस |

Ans. (d) : 'जुगुप्सा' वीभत्स रस का स्थायी भाव है। अन्य रस व स्थायी भाव इस प्रकार हैं-

रस	स्थायी भाव
शृंगार	रति
वीर	उत्साह
रौद्र	क्रोध

96. आलंबन और उद्धीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कहलाते हैं-

- | | |
|----------------|----------------|
| (a) स्थायी भाव | (b) अनुभाव |
| (c) विभाव | (d) संचारी भाव |

Ans. (b) : आलंबन और उद्धीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले को अनुभाव कहते हैं।

97. 'एक ओर अजगरहि लखि एक ओर मृगराई।

बिकल बटोही बीच ही परथौ मूरछा खाई।

में आलंबन है-

- | | |
|--------------------|------------|
| (a) अजगर | (b) मृगराई |
| (c) अजगर और मृगराई | (d) बटोही |

Ans. (c) : प्रश्नोत्तर पंक्ति में 'अजगर और मृगराई' दोनों ही आलंबन हैं। क्योंकि बटोही (यात्री) के रास्ते के दोनों ओर क्रमशः सिंह और अजगर की उपस्थिति भयोत्पादक है।

98. कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात।

भरे भौन में करत है, नैनन ही सो बात॥

इस दोहे में रस है-

- | | |
|---------------|--------------|
| (a) शृंगार रस | (b) वीर रस |
| (c) करुण रस | (d) हास्य रस |

Ans. (a) : उपर्युक्त पंक्ति में 'शृंगार रस' है। यह संयोग शृंगार का उदाहरण है। शृंगार रस के दो भेद होते हैं- 1. विप्रलम्भ शृंगार 2. संयोग शृंगार

99. 'गंगा ज्योतिर्जल-कण ध्वलधार हार लगे'- इस पंक्ति में अलंकार है-

- | | |
|----------------|---------------|
| (a) उपमा | (b) उत्तेक्षा |
| (c) अतिशयोक्ति | (d) रूपक |

Ans. (d) : 'गंगा ज्योतिर्जल- कण ध्वलधार हार लगे।' इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। गंगा की श्वेत लहरें (उपमेय) पर हार (उपमान) का अभेद आरोप है।

100. उपमा अलंकार है-

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| (a) 'सूरजमुखी' है | (b) 'थकी कुदाली' में |
| (c) 'हंस-जैसी-चाल' में | (d) 'बसन्ती-चोला' में |

Ans. (c) : 'हंस-जैसी-चाल' में उपमा अलंकार है। दिये गये उदाहरण में चाल की समानता हंस से की गयी है।

भाग-II : सामान्य गणित

101. यदि A को एक परीक्षा में B से 10% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तो B को प्राप्त होगा?

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| (a) A से 10% कम | (b) A से 10% अधिक |
| (c) A से $9\frac{1}{11}\%$ कम | (d) A से $9\frac{1}{11}\%$ अधिक |

Ans. (c) :

$$\begin{aligned} \text{B को प्राप्त प्रतिशत अंक} &= \frac{10}{(100+10)} \times 100 \\ &= \frac{10}{110} \times 100 \\ &= 9\frac{1}{11}\% \end{aligned}$$

अतः B को A से $9\frac{1}{11}\%$ कम अंक प्राप्त होगा।

102. यदि एक विद्यालय में 60 प्रतिशत लड़के हों और लड़कियों की संख्या 812 हो, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी?

- | | |
|----------|----------|
| (a) 1218 | (b) 1015 |
| (c) 812 | (d) 406 |

$$\begin{aligned} \text{अतः समांतर माध्य} &= \frac{\sum f \cdot x}{\sum f} \\ &= \frac{170}{16} \\ &= 10.625 \end{aligned}$$

109. आँकड़ों 8, 7, 15, 12, 10, 8, 9 की माध्यिका होगी

- (a) 12 (b) 11
 (c) 10 (d) 9

Ans. (d) :

आँकड़ों का आरोही क्रम = 7, 8, 8, 9, 10, 12, 15

आँकड़ों की संख्या (n) = 7

$$\begin{aligned} \text{अतः माध्यिका} &= \left(\frac{n+1}{2} \right) \text{वां पद} \\ &= \left(\frac{7+1}{2} \right) \text{वां पद} \\ &= 4 \text{ वां पद} \\ &= 9 \end{aligned}$$

110. यदि संख्याएँ 25, 22, 21, x + 6, x + 4, 9, 8, 6 के क्रम में हों और उनकी माध्यिका 16 हो, तो x का मान है

- (a) 9 (b) 10
 (c) 11 (d) 12

Ans. (c) :

दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम

= 25, 22, 21, x + 6, x + 4, 9, 8, 6

संख्याओं की संख्या (n) = 8

$$\text{तब, माध्यिका} = \frac{\left(\frac{8}{2}\right) \text{वां पद} + \left(\frac{8}{2} + 1\right) \text{वां पद}}{2}$$

$$\Rightarrow 16 = \frac{4 \text{ वां पद} + 5 \text{ वां पद}}{2}$$

$$\Rightarrow 16 = \frac{(x+6) + (x+4)}{2}$$

$$\Rightarrow 2x + 10 = 32$$

$$\Rightarrow 2x = 22$$

$$\Rightarrow x = 11$$

111. यदि आँकड़ों

8, 9, 11, 10, 12, 14, 11, 14, 15, 14, x, 11 का बहुलक 11 हो तो x का मान है

- (a) 11 (b) 12
 (c) 14 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (a) :

दिये गये आँकड़े = 8, 9, 11, 10, 12, 14, 11, 14, 15, 14, x, 11

∴ बहुलक = 11

Note— जिस पद की बहुलता ज्यादा होती है। उसे बहुलक कहते हैं। चूँकि संख्या 11 तीन बार आती है तथा संख्या 14 भी तीन बार आयी है। बहुलक 11 तभी होगा जब x का मान 11 होगा।

अब 11 चार बार हो जायेगा।

112. बहुलक, माध्यिका तथा समान्तर माध्य में सम्बन्ध है

बहुलक =

- (a) 3(माध्यिका) - 2(समान्तर माध्य)
 (b) 3(माध्यिका) + 2(समान्तर माध्य)
 (c) 2(माध्यिका) - 3(समान्तर माध्य)
 (d) 2(माध्यिका) + 3(समान्तर माध्य)

Ans. (a) : बहुलक, माध्यिका तथा समांतर माध्य में सम्बन्ध निम्न है—

$$\text{बहुलक} = 3 \times (\text{माध्यिका}) - 2 \times (\text{समान्तर माध्य})$$

113. 4, 7, 8, 6 और x का समान्तर माध्य 6 है। x का मान है

- (a) 4 (b) 5
 (c) 6 (d) 7

Ans. (b) :

4, 7, 8, 6 और x का समांतर माध्य

$$= \frac{4+7+8+6+x}{5}$$

$$\Rightarrow 6 = \frac{25+x}{5}$$

$$\Rightarrow x = 30 - 25$$

$$\Rightarrow x = 5$$

114. आँकड़ों

चर	2	5	6	10	12
बारम्बारता	6	10	8	1	5

का समान्तर माध्य है

- (a) 5 (b) 7
 (c) 6 (d) 8

Ans. (c) :

चर (x)	बारम्बारता (f)	f.x
2	6	12
5	10	50
6	8	48
10	1	10
12	5	60
	$\Sigma f = 30$	$\Sigma fx = 180$

$$\text{अतः समांतर माध्य} = \frac{\sum f \cdot x}{\sum f}$$

$$= \frac{180}{30}$$

$$= 6$$

115. व्यंजकों

$$2(x^2 - y^2), 3(x^3 - y^3)$$

का महत्तम समापवर्त है

- | | |
|-----------------|--------------------|
| (a) $x - y$ | (b) $x + y$ |
| (c) $x^2 - y^2$ | (d) $6(x^3 - y^3)$ |

Ans. (a) : दिया गया व्यंजक-

$$2(x^2 - y^2) = 2(x+y)(x-y)$$

$$3(x^3 - y^3) = 3(x-y)(x^2 + xy + y^2)$$

अतः स्पष्ट है कि $2(x^2 - y^2)$ एवं $3(x^3 - y^3)$ का म.स. = $(x - y)$

116. व्यंजकों $3x^2y^3, 4xy$ का लघुतम समापवर्त्य है

- | | |
|----------------|----------------|
| (a) $12x^2y^2$ | (b) $12x^2y^3$ |
| (c) $12xy^3$ | (d) $12x^3y^3$ |

Ans. (b) : दिए गए व्यंजक का गुणनखण्ड-

$$3x^2y^3 = 3x \times x \times y \times y \times y$$

$$4xy = 4 \times x \times y$$

अतः $3x^2y^3$ एवं $4xy$ का ल.स. = $3 \times x \times x \times y \times y \times y \times 4$
 $= 12x^2y^3$

117. $(a - b)^3 + (b - c)^3 + (c - a)^3$ के गुणनखण्ड हैं

- | |
|------------------------------|
| (a) $(a - b)(b - c)(c - a)$ |
| (b) $2(a - b)(b - c)(c - a)$ |
| (c) $3(a - b)(b - c)(c - a)$ |
| (d) $4(a - b)(b - c)(c - a)$ |

Ans. (c) : माना

$$(a - b) = x$$

$$(b - c) = y$$

$$(c - a) = z$$

$$\therefore x + y + z = a - b + b - c + c - a = 0$$

सूत्रानुसार,

$$\text{यदि } x + y + z = 0$$

$$\therefore x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$$

$$\therefore (a - b)^3 + (b - c)^3 + (c - a)^3 = 3(a - b)(b - c)(c - a)$$

118. $x^3 + 13x^2 + 31x - 45$ का गुणनखण्ड है

- | |
|-----------------------------|
| (a) $(x + 1)(x - 5)(x + 9)$ |
| (b) $(x - 1)(x + 5)(x + 9)$ |
| (c) $(x - 1)(x + 5)(x - 9)$ |
| (d) $(x + 1)(x + 5)(x - 9)$ |

Ans. (b) : दिया गया व्यंजक

$$\begin{aligned} & x^3 + 13x^2 + 31x - 45 \\ &= x^3 + 9x^2 + 4x^2 + 36x - 5x - 45 \\ &= x^3 + 4x^2 - 5x + 9x^2 + 36x - 45 \\ &= x(x^2 + 4x - 5) + 9(x^2 + 4x - 5) \\ &= (x^2 + 4x - 5)(x + 9) \\ &= (x^2 + 5x - x - 5)(x + 9) \\ &= [x(x + 5) - 1(x + 5)](x + 9) \\ &= (x - 1)(x + 5)(x + 9) \end{aligned}$$

119. यदि $x^9 + x^8 + x^3 + x + 1$ को $x + 2$ से भाग दिया जाय तो शेषफल होगा

- | | |
|----------|----------|
| (a) 260 | (b) 265 |
| (c) -260 | (d) -265 |

Ans. (d) :

$$x^9 + x^8 + x^3 + x + 1$$

$\therefore x + 2$ से भाग देने पर शेषफल प्राप्त करने के लिए $x = -2$ व्यंजक में रखने पर जो प्राप्त होगा व्यंजक का शेषफल होगा।

$$\begin{aligned} & \therefore x^9 + x^8 + x^3 + x + 1 = (-2)^9 + (-2)^8 + (-2)^3 + (-2) + 1 \\ &= -512 + 256 - 8 - 1 \\ &= -256 - 9 \\ &= -265 \end{aligned}$$

120. संख्याओं 105, 165, 285, 1365 का महत्तम समापवर्त्य

- | | |
|---------|--------|
| (a) 105 | (b) 75 |
| (c) 45 | (d) 15 |

Ans. (d) : गुणनखण्ड विधि से

$$105 = 3 \times 5 \times 7$$

$$165 = 3 \times 5 \times 11$$

$$285 = 3 \times 5 \times 19$$

$$1365 = 3 \times 5 \times 7 \times 13$$

अतः संख्याओं का म.स. = $3 \times 5 = 15$

121. संख्याओं 8, 9, 12, 15, 20, 25 का लघुतम समापवर्त्य

- | | |
|----------|----------|
| (a) 900 | (b) 1800 |
| (c) 3600 | (d) 4500 |

Ans. (b) : गुणनखण्ड विधि से

$$8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3$$

$$9 = 3 \times 3 = 3^2$$

$$12 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3$$

$$15 = 3 \times 5$$

$$20 = 2 \times 2 \times 5 = 2^2 \times 5$$

$$25 = 5 \times 5 = 5^2$$

संख्याओं का ल.स.

$$= 2^3 \times 3^2 \times 5^2$$

$$= 8 \times 9 \times 25$$

$$= 1800$$

127. समीकरण, जिसके मूल $\frac{1}{2}$ और $\frac{1}{3}$ हैं, होगा

- (a) $x^2 - 2x + 3 = 0$
- (b) $3x^2 - 2x + 1 = 0$
- (c) $6x^2 - 5x + 1 = 0$
- (d) $x^2 - 5x + 3 = 0$

Ans. (c) : समीकरण

$$x^2 - (\text{मूलों का योग}) x + \text{मूलों का गुणनफल} = 0$$

$$x^2 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)x + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = 0$$

$$x^2 - \left(\frac{2+3}{6}\right)x + \frac{1}{6} = 0$$

$$x^2 - \left(\frac{5}{6}\right)x + \frac{1}{6} = 0$$

$$6x^2 - 5x + 1 = 0$$

128. एक समबाहु त्रिभुज, जिसकी भुजा 2 सेमी है, का शीर्ष लम्ब है

- (a) 2 सेमी.
- (b) $2\sqrt{3}$ सेमी.
- (c) $\sqrt{3}$ सेमी.
- (d) 1 सेमी.

Ans. (c) : समबाहु Δ का शीर्ष लम्ब = $\frac{\sqrt{3}}{2} \times \text{भुजा}$
 $= \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2 = \sqrt{3}$ सेमी.

129. 20 मी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है

- (a) 200 मी²
- (b) $200\sqrt{3}$ मी²
- (c) $100\sqrt{3}$ मी²
- (d) $50\sqrt{3}$ मी²

Ans. (c) : समबाहु Δ का क्षेत्रफल = $\frac{\sqrt{3}}{4} \times (\text{भुजा})^2$

$$\begin{aligned} \text{क्षेत्रफल} &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times (20)^2 & (\text{भुजा} = 20) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 20 \times 20 \\ &= 100\sqrt{3} \text{ मी}^2 \end{aligned}$$

130. समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है

- (a) आधार \times ऊँचाई
- (b) $\frac{1}{3}$ आधार \times ऊँचाई
- (c) $\frac{1}{2}$ आधार \times ऊँचाई
- (d) आसन्न भुजाओं का गुणनफल

Ans. (a) : समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल = आधार \times ऊँचाई

131. किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का x गुना है, तब x का मान होगा

- (a) 1
- (b) $1/2$
- (c) $1/3$
- (d) $1/4$

Ans. (b) : समचतुर्भुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2}$ विकर्णों का गुणनफल

$$\Rightarrow x \times \text{विकर्णों का गुणनफल} = \frac{1}{2} \times \text{विकर्णों का गुणनफल}$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{2}$$


132. 6 मी. और 11 मी. ऊँचे दो खम्भे समतल पर खड़े हैं यदि उनके पाद 12 मी. की दूरी पर हों तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी है

- (a) 12 मी.
- (b) 13 मी.
- (c) 14 मी.
- (d) 15 मी.

Ans. (b) : DA = BC = 6 m.

$$EC = 11 - 6 = 5 \text{ m}$$

$$DC = AB = 12 \text{ m}$$




$$\text{शीर्षों के बीच की दूरी} = \sqrt{EC^2 + DC^2}$$

$$\begin{aligned} DE &= \sqrt{5^2 + 12^2} \\ &= \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} \\ &= 13 \text{ मीटर} \end{aligned}$$

133. एक त्रिभुजाकार मैदान की समकोण बनाने वाली भुजायें 12 मी. और 9 मी. की हैं। मैदान का परिमाप है

- (a) 56 मी.
- (b) 50 मी.
- (c) 46 मी.
- (d) 36 मी.

Ans. (d) : समकोण ΔABC से-




$$\begin{aligned} AC &= \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{9^2 + 12^2} \\ &= \sqrt{81 + 144} \\ &= \sqrt{225} \\ &= 15 \text{ मी.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta \text{ का परिमाप} &= AB + BC + CA \\&= 9 + 12 + 15 \\&= 36 \text{ सेमी.}\end{aligned}$$

134. एक आयत, जिसकी एक भुजा 10 सेमी और विकर्ण 26 सेमी है, का परिमाप है

- (a) 64 सेमी
- (b) 72 सेमी
- (c) 60 सेमी
- (d) 68 सेमी

Ans. (d) :



ΔABC से,

$$\begin{aligned}AB &= \sqrt{26^2 - 10^2} \\&= \sqrt{676 - 100} \\&= \sqrt{576} = 24 \text{ सेमी.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{आयत का परिमाप} &= 2(AB + BC) \\&= 2(24 + 10) \\&= 68 \text{ सेमी.}\end{aligned}$$

135. माना ABCD एक वर्ग है। यदि विकर्ण AC की लम्बाई 5.2 सेमी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल है

- (a) 15.12 सेमी²
- (b) 12.62 सेमी²
- (c) 10.00 सेमी²
- (d) 13.52 सेमी²

$$\begin{aligned}\text{Ans. (d)} : \text{वर्ग का क्षेत्रफल} &= \frac{1}{2} (\text{विकर्ण})^2 \\&= \frac{1}{2} (5.2)^2 = 13.52 \text{ सेमी.}^2\end{aligned}$$

136. यदि एक वृत्त की परिधि 20π सेमी हो, तो उसका व्यास होगा

- (a) 10 सेमी
- (b) 40 सेमी
- (c) 20 सेमी
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (c) : वृत्त की परिधि = $2\pi r$

$$\begin{aligned}2\pi r &= 20\pi \\r &= 10\end{aligned}$$

$$\text{वृत्त का व्यास} = 2r = 2 \times 10 = 20 \text{ cm}$$

137. एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 38.5 मी^2 है, तो उसकी परिधि है ($\pi = \frac{22}{7}$)

- (a) 22 मी
- (b) 22.5 मी
- (c) 11 मी
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (a) : वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल = 38.5 m^2

$$\pi r^2 = 38.5$$

$$r^2 = \frac{38.5 \times 7}{22}$$

$$r^2 = 12.25$$


$$r = 3.5$$

$$\begin{aligned}\text{वृत्त की परिधि} &= 2\pi r = 2 \times \frac{22}{7} \times 3.5 \\&= 22 \text{ मी.}\end{aligned}$$

138. एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लम्बाइयाँ 24 सेमी और 10 सेमी हैं। समचतुर्भुज का परिमाप है

- (a) 52 सेमी
- (b) 60 सेमी
- (c) 72 सेमी
- (d) 45 सेमी

Ans. (a) : समचतुर्भुज ABCD में



$$\text{विकर्ण } AC = 24 \text{ cm}$$

$$\text{विकर्ण } BD = 10 \text{ cm}$$

चौंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को लम्बवत् दो बराबर भागों में काटते हैं।

$$\text{अतः } AM = MC = \frac{AC}{2} = \frac{24}{2} = 12 \text{ cm}$$

$$DM = MB = \frac{DB}{2} = \frac{10}{2} = 5 \text{ cm}$$

ΔDMC से-

$$DC = \sqrt{MC^2 + DM^2}$$

$$= \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$$

$$\begin{aligned}\text{समचतुर्भुज का परिमाप} &= 4 \times 13 \\&= 52 \text{ cm}\end{aligned}$$

139. एक समलम्ब चतुर्भुज की समान्तर भुजायें 2 सेमी और 5 सेमी लम्बी हैं, और उनके बीच की दूरी 4 सेमी है। समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है

- (a) 28 सेमी^2
- (b) 35 सेमी^2
- (c) 11 सेमी^2
- (d) 14 सेमी^2

Ans. (d) : समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times$ समानांग भुजाओं का योग \times ऊँचाई

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} (2+5) \times 4 \\ &= \frac{1}{2} \times 7 \times 4 = 14 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

140. पूर्णांक में 'घटाने की संक्रिया' पालन करती है

- (a) संवरक नियम
- (b) क्रमविनिमेय नियम
- (c) साहचर्य नियम
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (a) : पूर्णांकों में 'घटाने की संक्रिया', संवरक नियम (closure property) पालन करती है।

जैसे—

$$a - b = p$$

$$\text{या } b - a = -p$$

अतः p तथा $-p$ दोनों पूर्णांक हैं।

141. कथन $(a + b) + c = a + (b + c)$ सत्य है; इस कथन को कहते हैं

- (a) क्रमविनिमेय नियम
- (b) संवरक नियम
- (c) वितरण नियम
- (d) साहचर्य नियम

Ans. (d) : साहचर्य नियम— $(a + b) + c = a + (b + c)$

$$\text{माना } a = 1, b = 2, c = -1$$

$$\text{तब } (a + b) + c = a + (b + c)$$

$$(1 + 2) - 1 = 1 + (2 - 1)$$

$$3 - 1 = 1 + 1$$

$$[2 = 2]$$

अतः दी गई संक्रिया योग साहचर्य नियम का पालन करती है।

142. यदि a, b, c परिमेय संख्याएँ हैं, तो योग पर गुणन का वितरण नियम है

- (a) $a \times (b + c) = (a \times b) + c$
- (b) $a + (b \times c) = (a + b) \times (a + c)$
- (c) $a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$
- (d) $a + (b \times c) = (a + b) \times c$

Ans. (c) : योग का गुणन का वितरण नियम—

$$a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$$

$$\text{माना } a = 1, b = 2, c = 3$$

$$\text{तब } a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$$

$$\text{अर्थात् } 1 \times (2 + 3) = (1 \times 2) + (1 \times 3)$$

$$1 \times 5 = 2 + 3$$

$$[5 = 5]$$

अतः विकल्प c में दी गई संक्रिया योग पर गुणन का वितरण नियम का पालन करती है।

143. $a + b = b + a$ तथा $x \times y = y \times x$ निम्नलिखित नियम का पालन करते हैं :

- (a) संवरक नियम
- (b) क्रमविनिमेय
- (c) साहचर्य नियम
- (d) बंटन नियम

Ans. (b) : क्रम विनिमेय नियम दो प्रकार के होते हैं—

1. योग का क्रम विनिमेय नियम

$$\text{जैसे } a + b = b + a$$

$$\text{माना } a = 1, b = 2$$

$$\text{तब } 1 + 2 = 2 + 1$$

$$[3 = 3]$$

2. गुणन का क्रम विनिमेय नियम

$$\text{जैसे } x \times y = y \times x$$

$$\text{माना } x = 1, y = 5$$

$$\text{तब } 1 \times 5 = 5 \times 1$$

$$[5 = 5]$$

अतः दी गई संक्रियाएँ क्रम विनिमेय नियम का पालन करती हैं।

144. $-\frac{6}{7}$ का गुणात्मक प्रतिलोम है

$$(a) \frac{6}{7} \quad (b) -\frac{6}{7}$$

$$(c) -\frac{7}{6} \quad (d) \frac{7}{6}$$

Ans. (c) : गुणात्मक प्रतिलोम—

$$A \cdot A^{-1} = 1$$

$$\Rightarrow -\frac{6}{7} \times A^{-1} = 1$$

$$A^{-1} = -\frac{7}{6}$$

145. निम्नलिखित संख्याओं में से कौन अपरिमेय है?

- (a) $\frac{22}{7}$ (b) 0.69
 (c) $\frac{5}{\sqrt{16}}$ (d) π

Ans. (d) :

$$\frac{22}{7}, 0.39 = \frac{69}{100}, \frac{5}{\sqrt{16}} = \frac{5}{4} \text{ परिमेय संख्याएँ हैं}$$

जबकि π अपरिमेय संख्या है।

146. दो संख्याओं का योग 100 तथा उनका अन्तर 50 हो तो उन संख्याओं का अनुपात होगा

- (a) 2 : 1 (b) 3 : 1
 (c) 5 : 1 (d) 4 : 1

Ans. (b) : माना संख्याएँ क्रमशः x व y हैं।

$$\text{तब } x + y = 100 \quad \dots \text{(i)}$$

$$x - y = 50 \quad \dots \text{(ii)}$$

समी. (i) व (ii) से-

$$x = 75, y = 25$$

$$\text{तब } \frac{x}{y} = \frac{75}{25} = \frac{3}{1}$$

$$\text{या } x : y = 3 : 1$$

147. एक आदमी ने एक टी.वी. सेट ₹ 3,500 में खरीदकर उसे 20% लाभ के साथ बेच दिया। विक्रय मूल्य है

- (a) ₹ 3,700
 (b) ₹ 4,200
 (c) ₹ 4,700
 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (b) : टी.वी. सेट का क्रयमूल्य (CP) = ₹ 3500

$$\text{लाभ (P)} = 20\%$$

$$\begin{aligned} \text{विक्रय मूल्य (SP)} &= \frac{CP(100+P)}{100} \\ &= \frac{3500(100+20)}{100} \\ &= 35 \times 120 \\ &= 4200 \text{ ₹.} \end{aligned}$$

148. एक घड़ी ₹ 405 में 10% हानि के साथ बेची गयी। घड़ी का क्रय मूल्य है

- (a) ₹ 445.50
 (b) ₹ 448
 (c) ₹ 450
 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (c) : घड़ी का विक्रय मूल्य (SP) = ₹ 405.

$$\text{हानि (L)} = 10\%$$

$$\begin{aligned} \text{घड़ी का क्रय मूल्य (CP)} &= \frac{SP \times 100}{(100 - L\%)} \\ &= \frac{405 \times 100}{100 - 10} \\ &= \frac{405 \times 100}{90} \\ &= 450 \text{ ₹.} \end{aligned}$$

149. $\frac{-2}{5}$ और $\frac{-1}{5}$ के बीच दो परिमेय संख्याएँ हैं

- (a) $-\frac{1}{3}, \frac{-4}{15}$
 (b) $-\frac{3}{5}, \frac{-4}{15}$
 (c) $-\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}$
 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (a) : विकल्प से,

$$\frac{-2}{5} \text{ और } \frac{-1}{5} \text{ के बीच दो परिमेय संख्याएँ } \frac{-1}{3}, \frac{-4}{15} \text{ हैं।}$$

$$\text{तब, } \frac{-2}{5}, \frac{-1}{3}, \frac{-4}{15}, \frac{-1}{5}$$

हर बराबर करने पर-

$$\frac{-6}{15}, \frac{-5}{15}, \frac{-4}{15}, \frac{-3}{15}$$

अतः विकल्प (a) सही होगा।

150. संख्या 18.484848..... को $\frac{p}{q}$ के रूप में निरूपित करने पर हो जाती है

- (a) $\frac{462}{25}$ (b) $\frac{610}{33}$
 (c) $\frac{200}{11}$ (d) $\frac{609}{33}$

Ans. (b) माना संख्या,

$$x = 18.4848 \dots$$

$$x = 18 + 0.\overline{48}$$

$$= 18 + \frac{48}{99}, x = 18 + \frac{16}{33} = \frac{610}{33}$$